



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 763]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2015/अग्राहायण 17, 1937

No. 763]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2015/AGRAHAYANA 17, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक, 8 दिसम्बर, 2015

सं. 58/2015-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 943(अ).—अभिहित प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य और रूस (जिसे इसके बाद विषयगत देशों कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “मेथेलीन क्लोराइड” जो “डाइक्लोरोमेथेन” के रूप में जाना जाता है (जिसे इसके बाद विषयगत माल कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात् सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष 2903 12 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-1, तारीख 30 अक्तूबर, 2015 में प्रकाशित अपने अनंतिम निष्कर्ष अधिसूचना फा. सं. 14/33/2014-डीजीएडी, के तहत अपने निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत देशों से भारत को सामान्य से कम मूल्य पर विषयगत माल का निर्यात कीमत किया गया है जिसके फलस्वरूप पाटन हुआ है;

(ii) क्षति मार्जिन सकारात्मक है एवं इतना महत्वपूर्ण है कि अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना न्यायसंगत है;

(iii) विषयगत देशों से विषयगत माल के आयात से घरेलू उद्योग को सामग्रीगत क्षति पहुंची है;

(iv) सामग्रीगत क्षति विषयगत देशों से विषयगत माल के पाटित आयातों के कारण हुई है,

और विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित अथवा निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत माल पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके;

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त

निष्कर्षों के आधार पर एतद्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्भूत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कॉलम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है, अर्थात्:-

सारणी

क्रस	उप-शीर्ष	वस्तु विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	290312	डाइक्लो रोमेथेन (मैथिलीन क्लोराइड)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	शांडोंग डॉंगयू फ्ल्यूओ-सिलीकोन मैटिरियल्स कं0, लि0	शांडोंग डॉंगयू फ्ल्यूओ-सिलीकोन मैटिरियल्स कं0, लि0	144.41	मीट्रिक टन	अमरी की डालर
2	290312	डाइक्लो रोमेथेन (मैथिलीन क्लोराइड)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा अन्य कोई देश	झियांग क्यूहुआ फ्लोरकैमिस्ट्री कं0 लि0	फार्मासिनो होल्डिंग (हांगकांग) लि0 हांगकांग	163.70	मीट्रिक टन	अमरी की डालर
3	290312	डाइक्लो रोमेथेन (मैथिलीन क्लोराइड)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	झियांग क्यूहुआ फ्लोरकैमिस्ट्री कं0 लि0	पोलीचैम कार्पोरेशन, ताइवान	163.70	मीट्रिक टन	अमरी की डालर
4	290312	डाइक्लो रोमेथेन (मैथिलीन क्लोराइड)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	झियांग क्यूहुआ फ्लोरकैमिस्ट्री कं0 लि0	मर्सी ग्रुप कं0 लि0, हांगकांग	163.70	मीट्रिक टन	अमरी की डालर
5	290312	डाइक्लो रोमेथेन (मैथिलीन क्लोराइड)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	क्रम सं. 1, 2, 3 और 4 के अलावा अन्य कोई संयोजन		232.47	मीट्रिक टन	अमरी की डालर
6	290312	डाइक्लो रोमेथेन (मैथिलीन क्लोराइड)	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	कोई	232.47	मीट्रिक टन	अमरी की डालर
7	290312	डाइक्लो रोमेथेन (मैथिलीन क्लोराइड)	विषयगत देशों से भिन्न कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	232.47	मीट्रिक टन	अमरी की डालर
8	290312	डाइक्लो रोमेथेन (मैथिलीन क्लोराइड)	रूस	रूस	कोई	कोई	194.43	मीट्रिक टन	अमरी की डालर
9	290312	डाइक्लो रोमेथेन (मैथिलीन	रूस	कोई	कोई	कोई	194.43	मीट्रिक टन	अमरी की डालर

		क्लोराइड)							
10	290312	डाइक्लो रोमेथेन (मैथिलीन क्लोराइड)	विषयगत देशों से भिन्न कोई देश	रूस	कोई	कोई	194.43	मीट्रिक टन	अमरी की डालर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 6 मास तक की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू “विनिमय दर” वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/273/2015-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2015

No. 58/2015-Customs (ADD)

G.S.R. 943(E).—Whereas, in the matter of “Methylene Chloride” also known as “Dichloromethane” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under sub-heading 2903 12 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the People’s Republic of China and Russia (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its preliminary findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification number 14/33/2014-DGAD, dated the 30th October, 2015, has come to the conclusion that –

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject countries below normal values;
- (ii) the dumping margins are positive and so significant that it justifies recommendation of preliminary duty;
- (iii) the domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from the subject countries;
- (iv) the material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries,

and has recommended imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (2) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid preliminary findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the

corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8) in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl.No.	Sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	Peoples Republic of China	Peoples Republic of China	Shandong Dongyue FluoSilicon Materials Co., Ltd.	Shandong Dongyue FluoSilicon Materials Co., Ltd.	144.41	MT	US Dollar
2.	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	Peoples Republic of China	Peoples Republic of China	Zhejiang Quhua Flourchemistry Co. Ltd	Farmasino Holding (HK) Limited, Hong Kong	163.70	MT	US Dollar
3.	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	Peoples Republic of China	Peoples Republic of China	Zhejiang Quhua Flourchemistry Co. Ltd	Polychem Corporation, Taiwan	163.70	MT	US Dollar
4.	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	Peoples Republic of China	Peoples Republic of China	Zhejiang Quhua Flourchemistry Co. Ltd	Mercy Group Co., Ltd., Hong Kong	163.70	MT	US Dollar
5.	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	Peoples Republic of China	Peoples Republic of China	Any combination other than Sl. No.1, 2, 3 and 4 above		232.47	MT	US Dollar
6.	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	Peoples Republic of China	Any	Any	Any	232.47	MT	US Dollar
7.	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	Any country other than subject countries	Peoples Republic of China	Any	Any	232.47	MT	US Dollar
8.	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	Russia	Russia	Any	Any	194.43	MT	US Dollar
9.	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	Russia	Any	Any	Any	194.43	MT	US Dollar
10.	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	Any country other than subject countries	Russia	Any	Any	194.43	MT	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period not exceeding six months (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/273/2015-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक, 8 दिसम्बर, 2015

सं. 59/2015-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 944(अ)- अभिहित प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद विषयगत देश कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "ग्लाइक्लाजाइड" (जिसे इसके बाद विषयगत माल कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात् सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2942 00 90 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, तारीख 20 अक्टूबर, 2015 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना फा. सं. 14/5/2014-डीजीएडी, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

- (i) विषयगत देश से विषयगत माल का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है;
- (ii) घरेलू उद्योग को विषयगत माल के संबंध में सामग्रीगत क्षति हुई है;
- (iii) सामग्रीगत क्षति विषयगत देश से विषयगत माल के पाटित आयातों द्वारा की गई है;
- (iv) यह क्षति विषयगत देश से आयातों द्वारा संचयी रूप से की गई है।

और विषयगत देश में मूलतः उत्पादित अथवा निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत माल पर निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वाक्त निष्कर्षों के आधार पर अधोलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देश में उद्भूत, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए ऐसे मामलों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित मुद्रा और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रतिमापन इकाई में व्यक्त उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में इंगित संदर्भ राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्रम सं.	उपशीर्ष	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उद्भूत का देश	निर्यात को देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2942 00 90	ग्लाइक्लाजाइड	कोई विनिर्देशन	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	शांडोंग केयुवान फार्मास्टिकल कं. लि0	शांडोंग केयुवान फार्मास्टिकल कं. लि0	20.86	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर

2	2942 00 90	ग्लाइक्लाजाइड	कोई विनिर्देशन	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	जियांग जियूयोउ फार्मास्टिकल कं. लि0	जियांग जियूयोउ फार्मास्टिकल कं. लि0	18.26	कि.ग्रा .	अमरीकी डालर
3	2942 0090	ग्लाइक्लाजाइड	कोई विनिर्देशन	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	क्रम सं. 1 और 2 पर दिए गए को छोड़कर कोई समूह		31.22	कि.ग्रा .	अमरीकी डालर
4	2942 0090	ग्लाइक्लाजाइड	कोई विनिर्देशन	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. के अलावा अन्य कोई देश	कोई	कोई	31.22	कि.ग्रा .	अमरीकी डालर
5	2942 0090	ग्लाइक्लाजाइड	कोई विनिर्देशन	चीन जन. गण. के अलावा अन्य कोई देश	चीन जन. गण.	कोई	कोई	31.22	कि.ग्रा .	अमरीकी डालर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू "विनिमय दर" वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/199/2015-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2015

No. 59/2015-Customs (ADD)

G.S.R. 944(E).—Whereas, in the matter of 'Gliclazide' (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 2942 00 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, vide notification number 14/5/2014-DGAD, dated the 20th October, 2015, has come to the conclusion that—

- the subject goods have been exported to India from the subject country below its normal value;
- the domestic industry has suffered material injury;
- the material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from subject country;
- the injury has been caused cumulatively by the imports from the subject country,

and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping

Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, specification of which is specified in column (4), falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (5), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (6), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Tariff item	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	2942 00 90	Gliclazide	Any specification	Peoples Republic of China	Peoples Republic of China	Shandong Keyuan Pharmaceutical Co. Ltd	Shandong Keyuan Pharmaceutical Co. Ltd	20.86	Kg	US Dollar
2.	2942 00 90	Gliclazide	Any specification	Peoples Republic of China	Peoples Republic of China	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd.	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd.	18.26	Kg	US Dollar
3.	2942 00 90	Gliclazide	Any specification	Peoples Republic of China	Peoples Republic of China	Any combination other than Sl. No.1 and 2		31.22	Kg	US Dollar
4.	2942 00 90	Gliclazide	Any specification	Peoples Republic of China	An country other than Peoples Republic of China	Any	Any	31.22	Kg	US Dollar
5.	2942 00 90	Gliclazide	Any specification	Any country other than Peoples Republic of China	Peoples Republic of China	Any	Any	31.22	Kg	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/199/2015-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.